

स्वीकृति पत्र

तिथि:

ग्राहक का नाम:

पता:

प्रिय महोदय/महोदया,

कृपया विज़डम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड से लोन/क्रेडिट सुविधा के लिए अपने वित्तीय सहायता आवेदन #_____ का सन्दर्भ लें। हमें आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने "मनीव्यू" के माध्यम से किए गए आपके आवेदन के लिए रु._____- की लिमिट स्वीकृत की है। वित्तीय सहायता को नियंत्रित करने वाले व्यापक नियम और शर्तें निम्नलिखित हैं।

1	स्वीकृत सीमा	-----
2	ड्रॉडाउन की अनुमेय संख्या	लिमिट राशी की उपलब्धता के अधीन, लिमिट की अवधि के दौरान कई ड्राडाउन
3	ब्याज दर % प्रति वर्ष	प्रत्येक ड्रॉडाउन के लिए ब्याज दर अलग-अलग हो सकती है और प्रत्येक ड्रॉडाउन करने से पहले लोन विवरण के साथ साझा की जाएगी
4	ब्याज दर का प्रकार	फिक्स्ड
5	सीमित अवधि (महीने)	60 महीने तक
6	उद्देश्य	उत्पादों और सेवाओं की खरीद के लिए
7	प्रोसेसिंग फीस	प्रत्येक ड्रॉडाउन के लिए प्रोसेसिंग फीस अलग-अलग हो सकती है और प्रत्येक ड्रॉडाउन करने से पहले लोन विवरण के साथ साझा की जाएगी
8	पेनल्टी प्रभार	अतिदेय राशि पर 24% प्रति वर्ष
9	बाउंस प्रभार	रु.500/- प्रति बाउंस (यह आपके बैंक द्वारा लगाए गए बाउंस प्रभार के अतिरिक्त है)
11.	पुनर्भुगतान आवृत्ति	मासिक
12.	देय तिथि	हर महीने की _____
13	मूलधन और ब्याज का विभाजन	*प्रत्येक ड्रॉडाउन के लिए अलग-अलग होगा

नियम और शर्तें:

- यह ऑफर जारी होने की तारीख से 30 कार्य दिवसों तक वैध है। विज़डम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड "विज़डम" परिस्थितियों में या अन्यथा किसी भी परिवर्तन की स्थिति में, अपने विवेकाधिकार पर इसके किसी भी नियम और शर्तों को वापस लेने और/या संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- इस स्वीकृति पत्र में निहित कुछ भी किसी भी पार्टी के पक्ष में या उसके खिलाफ किसी भी अधिकार या दायित्व या ब्याज बनाने के लिए नहीं समझा जाना चाहिए और ऋणी विज़डम द्वारा आवश्यकतानुसार उचित लोन दस्तावेजों को निष्पादित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

3. ऋणी पुष्टि करता है और सहमत होता है कि, विज़डम व्यापारी के प्लेटफॉर्म/स्टोर पर ऋणी द्वारा की गई खरीदारी के सापेक्ष ड्रॉडाउन राशि को सीधे व्यापारी से हस्तांतरित कर सकता है।
4. *मूलधन और ब्याज का विवरण लेन-देन विशिष्ट मुख्यांश कथन "केएफएस" में प्रदान किया जाएगा, जो लिमिट के ड्रॉडाउन पर ऋणी को जारी किया जाएगा।
5. इस स्वीकृति पत्र को ऋणी और ऋणदाता के बीच निष्पादित मास्टर अनुबंध, मुख्यांश कथन और पुनर्भुगतान अनुसूची के साथ पढ़ा जाएगा जो प्रत्येक ड्रॉडाउन के समय ऋणी को जारी किया जाएगा।
6. ऋणी घोषित करता है कि वह अंग्रेजी भाषा समझता है और इस स्वीकृति पत्र की शर्तों को स्पष्ट रूप से समझ गया है।

ब्याज दर का औचित्य

प्रत्येक ग्राहक के लिए जोखिमों के वर्गीकरण का आकलन करने के लिए विचार किए गए दृष्टिकोण/कारक हैं:

- a) प्रोफाइल, वित्तीय स्थिरता और बाजार की प्रतिष्ठा।
- b) क्रेडिट इतिहास और व्यवहार की अवधि।
- c) समग्र ग्राहक यील्ड, भविष्य की संभावना, नकदी प्रवाह और अन्य वित्तीय प्रतिबद्धताओं के आधार पर पुनर्भुगतान क्षमता।
- d) संबंधित ग्राहक खंड में ब्याज, डिफॉल्ट जोखिम।
- e) आरबीआई के दिशानिर्देश, अन्य कानून या मामला दर मामला आधार पर कोई अन्य कारक, जैसा लागू हो।
- f) अन्य (यदि कोई हो)

ब्याज दर की गणना के लिए विचार किए गए कारकों को कंपनी की ब्याज दर नीति में विस्तृत रूप से दिया गया है, जिसे <https://whizdmfinance.com/interest-rate-policy> पर देखा जा सकता है

संवितरण अनुसूची, ब्याज दरों, सेवा प्रभारों, पूर्व भुगतान प्रभारों आदि सहित नियम और शर्तों में किसी भी परिवर्तन की सूचना ऋणी को समय-समय पर ईमेल के माध्यम से दी जाएगी और प्रभावी रूप से प्रत्याशित होगी।

एसएमए और एनपीए वर्गीकरण का उदाहरण निम्नलिखित लिंक-
<https://whizdmfinance.com/customer-education> पर देखा जा सकता है।

विज़डम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

यह एक सिस्टम जनरेटेड पत्र है और इसके लिए किसी हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।